



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 821]	नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 16, 2018/कार्तिक 25, 1940
No. 821]	NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 16, 2018/KARTIKA 25, 1940

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2018

सा.का.नि. 1120(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल निजी सचिव, अनुभाग अधिकारी और सहायक, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2011 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में निजी सचिव, अनुभाग अधिकारी और सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, निजी सचिव, अनुभाग अधिकारी और सहायक, समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.— ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.— वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. गैर भारतीय नागरिकों की अपात्रता.— कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, लिखित में केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के सिवाय, इन नियमों के अधीन नियुक्त नहीं किया जाएगा:

परन्तु इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नेपाल या भूटान के नागरिकों को बल में नियुक्ति या नियोजन को वर्जित नहीं करेगी।

7. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. व्यावृत्ति — इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

9. निर्वचन :— यदि इन नियमों के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न उठता है, तो उसे केंद्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जो उसका विनिश्चय करेगी।

अनुसूची

पद का नाम (1)	पद संख्या (2)	वर्गीकरण (3)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर। (4)	चयन अथवा अचयन पद। (5)
1. निजी सचिव	2* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	स्तर-7 (44900-142400 रु)	चयन पद।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा (6)				
लागू नहीं।				
सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	
(7)	(8)	(9)	(10)	
लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	प्रतिनियुक्ति द्वारा।	

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वेतन मैट्रिक्स में स्तर जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।

(11)

प्रतिनियुक्ति द्वारा :

ऐसे निजी सचिव जो केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघशासित क्षेत्रों के विभागों में या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल संगठन में—

(i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है, या

- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :- (1) महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — अध्यक्ष; (2) उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य; (3) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी या वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी — सदस्य। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. अनुभाग अधिकारी	12* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	स्तर-7 (44900-142400 रु)	चयन पद।

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	प्रोन्नति द्वारा
(11)				
प्रोन्नति द्वारा :				
भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में ऐसे सहायक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स स्तर-6 में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान द्वारा यथा-विहित पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है या कर लिए हैं।				
टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।				

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :- (1) महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — अध्यक्ष; (2) उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य; (3) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी या वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी — सदस्य। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. सहायक	23* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	स्तर-6 (35400-112400 रु)	चयन पद।

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा।

(11)
<p>प्रोन्नति द्वारा :</p> <p>भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में ऐसे प्रवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान द्वारा यथा-विहित पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है या कर लिए हैं।</p> <p>टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>

(12)	(13)
<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <p>(1) महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — अध्यक्ष;</p> <p>(2) उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य;</p> <p>(3) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य।</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p>

[फा.सं. I-12012/08/2016-संगठन]
आर.बी.एस. नेगी, उप सचिव (कार्मिक-II)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November, 2018

G.S.R. 1120(E).— In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Indo-Tibetan Border Police Force, Private Secretary, Section Officer and Assistant, Group 'B' posts Recruitment Rules, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Private Secretary, Section Officer and Assistant in the Indo-Tibetan Border Police Force, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Private Secretary, Section Officer and Assistant, Group 'B' posts Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.— These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of post, classification and level in the pay matrix.— The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification.— No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Ineligibility of non-citizens of India- No person who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of the Central Government in writing, be appointed under these rules:

Provided that nothing contained in this rule shall debar the appointment or employment of a subject of Nepal or Bhutan in the Force.

7. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

9. Interpretation. — If any question relating to the interpretation of these rules arises, it shall be referred to the Central Government who shall decide the same.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification of the post.	Level in the pay matrix.	Selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Private Secretary.	02* (2018) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'B', Gazetted (Ministerial).	Level 7 (Rs. 44900 - 142400).	Selection post.

Age-limit for direct recruits.	Education and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By Deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.

(11)

By Deputation:

Personal Assistants of the Central Government, State Government, Union Territories department or Central Armed Police Force organisations.

(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

- (ii) With five years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level 6 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department;

(The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-two years as on the closing date of receipt of application).

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting of:- (1) Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman; (2) Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member; (3) Chief Administrative Officer or Senior Administrative Officer - Member. Indo-Tibetan Border Police Force	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Section Officer.	12* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B', Gazetted, (Ministerial).	Level 7 (Rs. 44900 - 142400).	Selection post.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.

(11)
By Promotion: Assistants working in the Indo-Tibetan Border Police Force with five years regular service in level 6 in the pay matrix and have successfully completed pre-promotion course or courses from Institute of Secretariat Training and Management as prescribed. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher level in the pay matrix along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting of:- (1) Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman; (2) Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member; (3) Chief Administrative Officer or Senior Administrative Officer, - Member. Indo-Tibetan Border Police Force	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Assistant.	23* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, (Ministerial).	Level 6 (Rs. 35400 - 112400).	Selection post.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years.	By promotion.

(11)
<p>By Promotion :</p> <p>Upper Division Clerks working in the Indo-Tibetan Border Police Force with ten years regular service in level 4 in the pay matrix and have successfully completed pre-promotion course or courses from Institute of Secretariat Training and Management as prescribed.</p> <p>Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher level in the pay matrix along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>

(12)	(13)
<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee for consisting of:-</p> <p>(1) Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force -Chairman; (2) Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force -Member; (3) Senior Administrative Officer, Indo-Tibetan Border Police Force -Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission not necessary.</p>

[F. No. I.12012/08/2016-Org]

R. B. S NEGI, Dy. Secy. (Pers-II)